



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2008 (आश्विन 19, 1930)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2008 (ASVINA 19, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं० आरएस/3/3/2008/62—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सुश्री साधना कुमारी, कनिष्ठ संसदीय वृत्त-लेखक को 22 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर संसदीय वृत्त-लेखक के ग्रेड में 15600-39100 रुपये के पे बैंड+6600 रुपये की ग्रेड पे (अन्तिम) तथा नियमानुसार देय भत्ते में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी०बी० राय, संयुक्त निदेशक

सं० आरएस/3/6(1)/2008/63—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ मुद्रण सहायक श्री राम देव को 22 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में

नियमित आधार पर मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में 9300-34800 रुपये के पे बैंड+5400 रुपये की ग्रेड पे (अन्तिम) तथा नियमानुसार देय भत्ते में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी०बी० राय, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2008

सं० आरएस/6/2/2008/64—कार्मिक—राज्य सभा सचिवालय की अधिसूचना सं० आरएस/6/2/2008/60—कार्मिक, दिनांक 4 सितम्बर, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, राज्य सभा के सभापति ने श्री राकेश सिंह, भा.प्र. से. (के.एन. 89) को 3 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से राज्य सभा के माननीय उपसभापति के वैयक्तिक स्टाफ में रु० 37400-67000 के वेतन बैंड+10,000 के ग्रेड वेतन (अन्तिम) (पूर्व-संशोधित रु० 18400-500-22400) में विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.डी.) के रूप में नियुक्त किया है।

2. श्री राकेश सिंह को नियुक्ति राज्य सभा के माननीय उपसभापति के

विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएंगे।

सोमबी राय, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 2008

सं पीएफ. 794-आर(3)/जी एन-6049/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, राय ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से प्रतिनिधित्व से बापम अपने पर इस सचिवालय में 12000-375-16500 रु के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लाइंस) ग्रेड-II के रूप में 1 मई, 2008 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार भुक्त प्रारंभ कर लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 2008

सं पीएफ. 24-आर(3)/जी एन-6053/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 15100-18300 रु के वेतनमान में कार्यरत निदेशक, श्री यु.एस. भस्मेन को 18400-500-22400 रु के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर 6 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2008

सं पीएफ. 48-आर(3)/जी एन-6055/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु के वेतनमान में कार्यरत उप सचिव-ग्रेड I, श्रीमती वीना शर्मा, जिन्हें दिनांक 29 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं पीएन-6025 के द्वारा तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15100-400-18300 रु के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर 11 जून, 2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 76-आर(3)/जी एन-6056/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 12000-16500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिव ग्रेड II, को 12750-375-16500 रु के वेतनमान में उप सचिव-ग्रेड I के ग्रेड में 11 जून, 2008 से, नीचे दर्शाए गए क्रम में, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं:

1. श्री छे-आर-शेखर
2. श्री जे.एम. वैराग्य
3. डॉ॰ रामराज राय
4. श्री नरेन्द्र कुमार पण्डित

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 122-आर(3)/जी एन-6057/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु के वेतनमान में कार्यरत अवर सचिव, श्री वासुदेव कुमार गुप्ता को 12000-375-16500 रु के वेतनमान में उप सचिव-ग्रेड-I के ग्रेड में 11 जून, 2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 169-आर(3)/जी एन-6058/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी, श्री मुरलीधरन पी. जिन्हें दिनांक 27 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं पीएन-5947 के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, को 10000-325-15200 रु के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 11 जून, 2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 170-आर(3)/जी एन-6059/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10000-325-15200 रु के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में 11 जून, 2008 से अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं:

1. डॉ॰ (श्रीमती) जगन्निका दास
2. श्री महेश्वर

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 843-आर(3)/जी एन-6060/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित शोध/संदर्भ सहायकों को 8000-275-13500 रु के वेतनमान में शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में स्थापनापन आधार पर 11 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाए गए क्रम में, सहर्ष नियुक्त करते हैं:

1. डॉ॰ तुषार कान
2. सुश्री मधु धवन
3. श्रीमती पूनम कटारिया
4. मो॰ शरफ
5. श्रीमती अनिता जेथिक
6. श्री इश्टियाक अज़म
7. श्री शाम लाल

2. वे शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में दिनांक 11 जून, 2008 से 10 जून, 2010 तक दो वर्षों को अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आरू एंड सीएस आदेश सं पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 962-आर(3)/जी एन-6061/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II, श्री चक्रपाणि मिश्रा को 10000-325-15200 रु के वेतनमान में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-1 के ग्रेड में 11 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 974-आर(3)/जी एन-6062/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 12000-16500 रु के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-II, श्री चौक्के लाम्बा को 12750-375-16500 रु के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-1 के ग्रेड में 11 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 990-आर(3)/जी एन-6063/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमती उषा रघुनाथन को 12000-375-16500 रु के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-II के ग्रेड में 11 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 1207-आर(3)/जी एन-6064/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित मुद्रण प्रबंधकों को 10000-325-15200 रु के वेतनमान में सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के ग्रेड में 11 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाये गए क्रम में, सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

1. श्री वेद पी० नैडियल
2. श्री सतीश कुमार शर्मा

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 13 जून, 2008

सं पीएफ. 15/26/2008/जी एन-6066/ए एन-1 भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'क' के जे ए जी (एनएफएसजी) अधिकारी, श्री भूपेन्द्र कौथोला (आई आर एल ए संख्या-13516), जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक सभा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल में कार्यकारी निदेशक (कार्यक्रम) के पद

पर कार्यरत हैं, को 13 जून, 2008 (अपराहन) से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 15/26/2008/जी एन-6067/ए एन-1 भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'क' के जे ए जी (एनएफएसजी) अधिकारी, श्रीमती शेफाली बी० शरण (आई आर एल ए संख्या-13709), जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक सभा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को 13 जून, 2008 (अपराहन) से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 15/2/जी एन-6070/2008/ए एन-1 अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 फरवरी, 2008, 10 फरवरी, 2008 और 13 फरवरी, 2008 को हुई क्रमशः लिखित परीक्षा, आशुलिपिकीय परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर श्री चन्द्र शेखर सिंह का लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II (अंग्रेजी/हिंदी) के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II (अंग्रेजी/हिंदी) के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में, 3 जून, 2008 के पूर्वान्हन से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह दिनांक 03.06.2008 से 02.06.2010 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षार्थी रहेंगे।

3. उनकी संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसंबर, 2003 के आरू एंड सीएस आदेश सं पी डी ए-1076/2003 के अनुसार विनियमित होगी।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ. 123-आर(3)/जी एन-6073/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु के वेतनमान में कार्यरत अवर सचिव, श्री आरूके सूर्यनारायण को 12000-375-16500 रु के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में 14 जुलाई, 2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं पीएफ 1359-आर(3)/जी एन-6074/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत सहायक संपादक श्री बिपिन कुमार पट्टाक, जिन्हें 27 नवम्बर, 2007 को अर्धसूचना सं नौएन 5999 द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में 14 जुलाई, 2008 से, नियमित आधार पर, अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

सं पीएफ 1360-आर(3)/जी एन-6075/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में 14 जुलाई, 2008 से, अगले आदेशों तक नीचे दर्शाये गये क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं: -

1. श्री राम अवतार
2. श्री एस एम कोहान
3. श्रीमती सनीया तिवारी
4. श्रीमती कीर्तिब्रथा
5. श्री सुखदेव गुप्त
6. श्री महवीर सिंह
7. श्री नरेश मिश्र

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

सं पीएफ 1368-आर(3)/जी एन-6076/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 14 जुलाई, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाये गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

1. श्री राजेश एम चंद्रा
2. श्री अशोक कुमार जायसवाल
3. श्री चलन सिंह

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

सं पीएफ 924-आर(3)/जी एन-6077/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अनुवादकों

को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर 14 जुलाई, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाये गए क्रम में, सहर्ष नियुक्त करते हैं: -

1. श्री रणविलय कुमार राव
2. श्री कैलाश बैलोन
3. श्रीमती प्रतिभा कृष्ण
4. सुश्री सोनाक्षी रानत
5. श्री अनिल कुमार चिन्मय
6. श्री आकाशदीप शंकर
7. श्री एजेंद्र सिंह

2. वे दिनांक 14 जुलाई, 2008 से 13 जुलाई, 2010 तक दो वर्ष की अवधि के लिए सहायक संपादक के ग्रेड में परिवर्तित रहेंगे।

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

सं पीएफ 1420-आर(3)/जी एन-6078/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु के वेतनमान में कार्यरत अनुवादक, श्री लक्ष्मण प्रसाद को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 14 जुलाई, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

सं पीएफ 1489-आर(3)/जी एन-6079/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय भाषांतरकार, ग्रेड-II को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में भाषांतरकार, ग्रेड-I के ग्रेड में 14 जुलाई, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाये गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं: -

1. श्री नफीस अहमद
2. सुश्री अलकांजना बनर्जी
3. श्रीमती बबिता सिंह परसाई

अभिजीत कुमार, निदेशक

-----

दिनांक 16 जुलाई, 2008

सं पीएफ 924-आर(3)/जी एन-6081/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 12000-16560 रु के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II, श्री के.बी. जगन्नाथ, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल

को वैयक्तिक सहायक तथा विशेष कार्य अधिकारी के रूप में राजभवन, बंगलौर में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को वैयक्तिक आधार पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन योजना के अंतर्गत 12750-375-16500 रुपये के अगले उच्चतर वेतनमान में स्थानन करके 1 जुलाई, 2008 से प्रथम वित्तीय उन्नयन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. श्री जे० पी० जगन्नाथ को उच्चतर वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन/स्थानन किया जाना, दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को आर० एंड सी० एस० आदेश संख्या पी० डी० ए०-1042/2001 में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 18 जुलाई, 2008

सं० एफ० 15/7/2008/जी एन-6082/ए एन-1 अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई, 2008 को लिए गए साक्षात्कार के आधार पर श्री सुनीत टंडन, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, नई दिल्ली जो वर्तमान में लोक सभा टेलीविजन चैनल में कार्यकारी निदेशक (विपणन) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, को मुख्य कार्यकारी के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें 22400-525-24500 रु० के वेतनमान में 18 जुलाई, 2008 से 17 जुलाई, 2011 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मुख्य कार्यकारी के पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुनीत टंडन 18 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से कार्यकारी निदेशक (विपणन) के पद से सेवामुक्त हो गए हैं।

3. श्री सुनीत टंडन को प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें लोक सभा सचिवालय द्वारा 10 अक्टूबर, 1995 के आर एंड सी एस आदेश संख्या प्रकीर्ण 54/95 द्वारा यथाअंगीकृत दिनांक 5 जनवरी, 1994 डी ओ पी टी कार्यालय स्थापन संख्या 2/29/91-स्था०(वेतन-II), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार विनियमित होंगी।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 31 जुलाई, 2008

सं० पी०एफ० 1752-आर(3)/ए एन-1/जी एन-6088/2008 श्री वी० के० शर्मा एसएसबी के क्षेत्रीय संगठक जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं, को 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् महानिदेशक, एसएसबी, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 4 अगस्त, 2008

सं० पी०एफ० 124-आर(3)/जी एन-6089/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु० के वेतनमान में कार्यरत अवर सचिव,

श्री संतोष कुमार को 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में 1 अगस्त, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं० पी०एफ० 1005-आर(3)/जी एन-6090/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित निजी सचिवों को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में, 1 अगस्त, 2008 से, अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाये गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

1. श्रीमती सुषमा गर्ग
2. श्रीमती अलका खंडुजा
3. श्री जे० पी० बड़ोनी
4. श्री विनय दुआ
5. श्री हरीश कुमार
6. श्रीमती अनु भाटिया

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं० पी०एफ० 1032-आर(3)/जीएन-6091/ए एन-1/2008 अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सहायकों को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में निजी सचिव के ग्रेड में, स्थानापन्न आधार पर, 1 अगस्त, 2008 से अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाए गए क्रम में, सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

1. श्रीमती रचना गौतम
2. श्रीमती सुनिता भूरिया
3. श्रीमती कविता भोयल
4. श्रीमती कंचनजीत कौर
5. श्री ब्रह्म प्रकाश

2. वे 1 अगस्त, 2008 से 31 जुलाई, 2010 तक दो वर्षों की अवधि के लिए निजी सचिव के ग्रेड में परीक्षीक्षाधीन होंगे।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 18 अगस्त, 2008

सं० पी०एफ० 78-आर(3)/जीएन-6093/ए एन-1/2008 डॉ० रामराज राय, उप सचिव को 18 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति

आधार पर, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में नियुक्त हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित किया है।

अभिजीत कुमार, निर्देशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2008

सं-ए-32013/77/2004-प्रशा-1, राष्ट्रपति श्री देवेन्द्र कुमार सिकरी, भा.प्र.से. (गुजरात: 75) को उनके पद की इन मिट्ट पदोन्नति करते हुए गृह मंत्रालय में भारत का महासचिव के पद पर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से रुचिव के ग्रेड एवं वेतनमान पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. शर्मा, अवर सचिव

सं-20/जे.7/2813-प्रशा-1, राष्ट्रपति श्री विनय कुमार, भा.प्र.से. (कर्नाटक: 75), अवर सचिव को उनके पद की इन-मिट्ट पदोन्नति करते हुए गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

जे. जी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2008

सं-14031/5/2008-ग्रीएस-1 राष्ट्रपति, संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-मंच राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1991 वेच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सी. रोपीअंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह संवागंधीता लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 1602क) के अनुसार 15 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से स्वीच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करती है।

बालदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2008

सं पीएफ/को.87 प्रशा-1, लोक सभा में विपक्ष के नेता के सहायक निजी सचिव के पद से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्री एम. एन. जोशी, प्रोटेक्टिव अधिकारी को 1.09.2008 (पूर्वाह्न) से गृह मंत्रालय की गणचाली में शामिल किया जाता है।

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2008

सं-1-11014/2/2008-आईपीएस-IV, केंद्र सरकार, पन्द्रहवां भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिपुरा, भणिपुर और छत्तीसगढ़ सरकारों की सहमति से, श्री शेख आरिफ हुसैन, आई पी एस (एनजी: 2005)

का विवाह सुश्री शर्मिष्ठा आत्रिदी, आई ए एस (सी जी: 2007) के साथ हो जाने के आधार पर उनका मण्डपुर-त्रिपुरा के आईपीएस संवर्ग से छत्तीसगढ़ के आईपीएस संवर्ग में स्थानान्तरण करती है।

राजेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2008

संख्या: आई-14011/14/2007-आईपीएस-1(I) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.09.2008 को चयन समिति की दिनांक 18.12.2007 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2007 को उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2007 में तीन मौलिक शक्तियों की भी जाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:-

चयन सूची 2007

क्रम संख्या	अधिकारियों का नाम	जन्म तिथि
1.	मनोहर सिंह जामरा (अज-जग)	13.11.1955
2.	एस. पी. सिंह (अज-जग)	10.10.1960
3.	जीनेन्द्र सिंह कुशवाह	19.09.1961

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

संख्या: आई-14011/14/2007-आईपीएस-1(II) राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची 2007

क्रम संख्या	अधिकारियों का नाम	जन्म तिथि
1.	मनोहर सिंह जामरा	13.11.1955
2.	एस. पी. सिंह	10.10.1960
3.	जीनेन्द्र सिंह कुशवाह	19.09.1961

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

संख्या: आई-14011/32/2007-आईपीएस-1 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री सी. राजगोपाल (जन्म तिथि: 10.03.1953) के नाम को केरल

पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिये दिनांक 23.06.2008 को आयोजित वर्ष 2007 की चयन सूची बैठक में, जिसे आयोग ने दिनांक 20.07.2008 को अनुमोदित किया था, दिनांक 24.09.2008 को उनके नाम को अंतिम रूप से शामिल किये जाने की परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में द्वितीय परंतुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य पुलिस के सदस्य श्री सी० राजगोपाल (जन्म तिथि: 10.03.1953) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954

के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ० एस० अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितंबर, 2008

सं० 24012/16/2008-अध्यासे (II) राष्ट्रपति, महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री वी० चन्द्रशेखर, अध्यासे (महाराष्ट्र-87) का त्यागपत्र, अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकार करते हैं।

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएं)

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं० 41/27/07-पी० और पी० इन्क्यू० (सी) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) और 19(1) के अनुसार एवं इस मामले में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने निर्दिष्ट विषयों के संबंध में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पद नामित करते हैं—

क्रम संख्या	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम	दूरभाष सं०	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष सं०
1	2	3	4	5
1.	श्री हरजोत सिंह, अवर सचिव (डैस्क 'ए')	24644634	पेंशन के सभी पहलुओं से संबंधित मामले; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए पेंशन योजना शुरू करने संबंधी प्रस्ताव; पेंशन अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम।	श्री एम०पी० सिंह, निदेशक (पी०पी०) 24624802
2.	श्री राजन सूद, अनुभाग अधिकारी, (डैस्क 'एफ')	24644631	सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान से संबंधित सभी पहलु; अस्थायी/अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन संवैधानिक/सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं; ई०ओ०पी०।	श्री एम०पी० सिंह, निदेशक (पी०पी०) 24624802
3.	श्री वी० के० वधवा, अवर सचिव, (डैस्क 'जी')	24644637	(क) मंहगाई राहत से संबंधित सभी मामले; पेंशन का सार्वशीकरण; पेंशन निधि योजना; स्कोवा; पेंशन भुगतान का तरीका।	श्री एम० पी० सिंह, निदेशक (पी०पी०) 24624802

1	2	3	4	5
			(ख) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी कर्मचारियों के कार्मिक, प्रशासन, स्थापन, रोकड़/वजेट मामले।	श्री के. एस. चिब्व, उप सचिव, दूरभाष: 24635979
4.	श्री आपिताथ दिवेदो, अवर सचिव (डेस्क 'ख')	24644636	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के स्थायी ससर्विलियन के मामले। केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को विकित्सा सुविधाएं/गैर सेवानिवृत्त प्रमुविधा मामलों में शिकायत।	श्री गीता राम, निदेशक (पी० डब्ल्यू०) 24624752
5.	श्री एन. एस. मेनानाथन, अवर सचिव, (डेस्क 'ख')	24635954	अर्हक सेवा के सभी पहलुओं से संबंधित मामले; केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पेंशनरी जिम्मेदारियों का वंटआरा/पूर्व बर्मा/गोवा/पांडिचेरी पेंशन भोगी।	श्री गीता राम, निदेशक (पी० डब्ल्यू०) 24624752
6.	श्रीमती गीता राम, अवर सचिव, (डेस्क 'ई')	24644632	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन से संबंधित मामले, सीपीएफ सेवानिवृत्त को और उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान।	श्री के. एस. चिब्व, उप सचिव, दूरभाष: 24635979
7.	श्री सुकर सिंह, अवर सचिव (डेस्क 'सी')	24644847	पेंशनभोगियों की शिकायतें।	श्री के. एस. चिब्व, उप सचिव, दूरभाष: 24635979
8.	श्री आर. एस. जयान्त, अवर सचिव, (डेस्क 'एच')	24650985	सरकारी कार्य में हिन्दों के प्रयोग से संबंधित मामले/समन्वय/सूचना सुविधा केन्द्र।	श्री के. एस. चिब्व, उप सचिव, दूरभाष: 24635979

सुकर सिंह, अवर सचिव

## वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2008

भारतीय राजस्व सेवा (योग शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनायें सं-45/2008 फा सं-ए-38012/30/2008 प्रशा: II राष्ट्रपति को-सोवर्क (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 को अंतर्गत श्री एन.वी. देशमुख, सहायक आयुक्त, कलकत्ता को दिनांक 08.10.2008 (अपर.द.) से स्पेक्ट्रिक सेवा निवृत्ति की सूचना को ग्योकार करते हैं।

एस. के. देव, अवर सचिव,

कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी सुश्री रोज मेरी अब्राहम (आईईएस) को 1 सितम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक 8000-275-13,500 रुपए (एच-संशोधित) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निलम्बित निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नोलम वोहरा, अवर सचिव,

## आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 2008

सं-ए-22011/1/2008-प्रशा-1 ए: राष्ट्रपति, भारतीय अधिकार सेवा को

दिनांक 18 सितम्बर, 2008

सं-ए-12011/5/2008-प्रशा-1 ए राष्ट्रपति, पश्चिम रेलवे में कार्यरत श्री राजीव नयन शर्मा को 9 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से 19.06.2009 तक की अवधि के लिए 10,000-325-15,200/-रु के वेतनमान में तदर्थ



प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (बजट एवं लेखा) समूह 'क' राजपत्रित, के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति भाषा विधि से नियमित कराने अथवा वरिष्ठता इत्यादि जैसे लाभों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2008

सं. ए-19011/2/2007-प्रशा. 2 इस विभाग की दिनांक 15 सितम्बर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के प्रतिस्थापन में राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) में अवर सचिव सुश्री मिथुश्री खुल्लर, भा.प्र.से. (यूटी: 75) को उनके द्वारा धारित पद का इन-सीटू उन्वयन करके इसी विभाग में दिनांक 12 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक सचिव के वेतन में विशेष सचिव नियुक्त करते हैं।

सु.कु. वर्मा, निदेशक

दिनांक 17 सितम्बर, 2008

सं. ए-19011/15/2007-प्रशा. 2 राष्ट्रपति, श्री अशोक चावला, भा.प्र.से. (गुजरात: 73) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 17 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, सचिव नियुक्त करते हैं।

सु.कु. वर्मा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2008

सं. ए-22011/2/2008-प्रशा. 11 राष्ट्रपति, व्यव. विभाग (सीएस) के दिनांक 17.09.2008 के का.प्र.सं.-32014/1/2007-सीएस के अनुसरण, में, सीएस के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से 31.12.2008 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-2 में 9300-34,800 + 4,800 रुपये (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं—

क्रम सं.	कर्मचारियों का नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती साधना शर्मा	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती नीलम सिन्धुल	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
3.	श्रीमती दयाल कुमारी कालरा	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
4.	श्रीमती संजय कुमार झा	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
5.	श्रीमती सरिता गुलाटी	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
6.	श्री भास्कर चक्रवर्ती	17.09.2008 (पूर्वाह्न)

7.	श्री भोला नाथ सेनी	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
8.	श्री मनोज मनु	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
9.	श्री गौतम कुमार यादव	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
10.	श्री जे. एल. जैन	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
11.	श्रीमती नीरा बुद्धिराज	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
12.	श्री अशोक कुमार	17.09.2008 (पूर्वाह्न)
13.	श्री के.एल. मीना (अ.प्र.से.)	17.09.2008 (पूर्वाह्न)

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी—

क. तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

ख. यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक चलाती रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

### वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2008

सं. ए-19014/11/2008-डीआरटी केन्द्र सरकार, श्री राम भूषण त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रबंधक (विधि), बैंक ऑफ इंडिया को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 01.07.2008 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण III में प्रतिनियुक्ति आधार पर वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19015/5/2008-डीआरटी केन्द्र सरकार, श्री बिनोद कुमार शर्मा, मुख्य प्रबंधक, पंजाब पैशनल बैंक को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 15.05.2008 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण III, मुम्बई में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त, 2008

सं. ए-1336/2003-डीआरटी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सौंपे गए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एन.एच.ए. श्री सी.एन.एस. रामाचार्युलु, पीठासीन अधिकारी, वरुण वसूली अधिकरण III, चैन्नई को अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी वरुण वसूली अधिकरण, II-चैन्नई का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

ए. धर्मम, अवर सचिव

दिनांक 15 सितम्बर, 2008

सं. ए-15012/4/2007-डीआरटी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सौंपे गए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 के साथ पठित धारा 4 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, श्री के. जे. पराशर को 22 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, वरुण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

ए. धर्मम, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा. 1: राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा के आधुनिक ग्रेड "सी" श्री अरुण कुमार, को वर्ष 2003 की चयन सूची के अंतर्गत सी.एस.एस.एस. के आधुनिक ग्रेड ए.एण्ड बी (आर्पोल) के ग्रेड में नियमित पदोन्नति के आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 6500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में 28 अगस्त, 2008 को पूर्वाह्न से आधुनिक ग्रेड ए.एण्ड बी (आर्पोल) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करने है।

2. श्री अरुण कुमार, सी.एस.एस.एस. नियमावली के अनुसार नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन (ट्रायल पर) रहेंगे।

पीतल्ले घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2008

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा. 1: राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को सी. एस. एस. के वर्गीकृत कोट रिक्रूटमेंट में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियमित पदोन्नति, अनुसू. 9300-34,800 रुपये के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शाए गये तारीख और आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	नाम (सर्वे और सूची)	नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रचार द्रष्टा करने की तारीख	चयन सूची वर्ष
1	अश्वनी कुमार अग्रवाल	31.08.2007 (पूर्वाह्न) 2003 को सेवानिवृत्त	
2	बी. बी. बंसलकर	10/9/2008	2003
3	साहब सिंह	10/9/2008	2003
4	संदीप बजा	10/9/2008	2003
5	राम कंवर	10/9/2008	2003
6	एच. सी. अर्गड़ा	31.08.2008 (पूर्वाह्न) 2004 को सेवानिवृत्त	
7	ए. एल. मदान	10/9/2008	2004
8	शशि ब्रेहन	10/9/2008	2004
9	के. एन. बहुगुणा	10/9/2008	2004
10	अनीता महेंद्र	15/9/2008	2004
11	बी. एम. सिंह	10/9/2008	2004

2. अधिकारी सी.एस.एस. नियमावली के अनुसार नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन (ट्रायल पर) रहेंगे।

3. यह नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में तंत्रित श्री कैलाश चन्दर बनाम भारत संघ द्वारा दायर कोर्ट केस नं. 13245 (40/2005) और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में तंत्रित श्री सौराभ सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केस नं. ओ.ए. 1083/2007 एण्ड एन.ए. सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन है। इससे अतिरिक्त, अधिकारियों को दिए जाने वाले एन.ए.एस. जैसे वित्तीय लाभ, यदि कोई हैं, भी उपर्युक्त 2 कोर्ट मामलों के निर्णय के अधीन होंगे।

मंताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2008

सं. ए-22015/1/99इ. 11: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के कार्यालय अग्रण सं. 3/18/2005-सी.एस. 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा वस्त्र मंत्रालय में आरंभ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ), श्री एम्. सी. शर्मा को वाणिज्य उद्योग के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड की वर्ष 2005 की चयन सूची में दिनांक 12 अगस्त, 2008 से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2008

संख्या ए-19011/14/2005-स्थापना: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के कार्रवाई सं 5/18/2005-सी एस-II की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रपति, श्री ए.के. आडवाणी को दिनांक 12 अगस्त, 2008 से चयन सूची वर्ष 2005 के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में रुपये 12000-16500 के वेतनमान में नियमित आधार पर, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

संख्या ए-32011/10/2004-स्थापना: राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2008 के कार्रवाई सं 7/5/2008-सी एस-I

के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में शरित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के श्री वसन्त कुमार (चयन सूची: 1995/सामान्य) को, तदर्थ आधार पर रुपये 6500-200-10,500/- के वेतनमान में 1 सितम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं हो जाते अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री वसन्त कुमार की नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर है और यह इस ग्रेड पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा सी एस एस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2008

संख्या ए-42013/3/2005 प्रसा: इस मंत्रालय की दिनांक 12.03.2008 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और धारा 19(1) में वर्णित उपबन्धों के अनुसार, इस मंत्रालय का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा सार्वजनिक कार्य आर्काइव की प्रति के तहत इस मंत्रालय में उन्हें आर्काइव किए गए कार्यों के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी नामित करते हैं। उनके नाम, पदनाम और टेलीफोन/फैक्स नम्बरों का दर्शाने वाले ब्लॉक नीचे दिए गए हैं:—

क्रम सं.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी का नाम और पदनाम	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी का टेलीफोन नम्बर/ई-मेल, यदि कोई है।	कालम-2 में उल्लिखित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी का नाम और पदनाम	कालम-4 में उल्लिखित अपील प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी का टेलीफोन नं./ई मेल
1	2	3	4	5
1	श्री एस. के. नंदा अवर सचिव	011-26496506 sknanda63@indiatimes.com	श्री सर्वेश कुमार, उप सचिव	011-26493224
2	श्री एस. एल. बड़ोदिया अवर सचिव	011-26496505	श्री सर्वेश कुमार, उप सचिव	011-26493224
3	श्री काशी नाथ, अवर सचिव	011-26497637, EX. 304	श्रीमती रूपाली बैनर्जी सिंह, उप सचिव	011-26499433 rupali_banerjee@nic.in
4	श्रीमती सावित्री यादव, सहायक निदेशक, (राजभाषा)	011-26491859	श्री सर्वेश कुमार, उप सचिव	011-26493224
5	श्री एस. के. सिंह, अवर सचिव	011-26493680	श्री अवधेश कुमार, निदेशक	011-26492113 awdhesh.kumar@nic.in
6	श्री एस. के. मोहंती, अवर सचिव	011-26492174	श्री अवधेश कुमार, निदेशक	011-26492113 awdhesh.kumar@nic.in

1	2	3	4	5
7	श्री सुरेन्द्र सिंह सहायक औद्योगिक सलाहकार	011-26493237	श्री अवधेश कुमार, निदेशक	011-26492113 awdhesh.kumar@nic.in
8	श्री बी. के. जैन, सहायक निदेशक (आई एस एम)	011-26492216, Ext. 1401	श्री अवधेश कुमार, निदेशक	011-26492113 awdhesh.kumar@nic.in
9	श्री एस. पी. नवान, अवर सचिव	011-26493078 satyaprasadnandan@ yahoo.com	श्री एन. एम. भटनागर, उप सचिव	011-26497635 nmibhatnagar@rediffm ail.com
10	श्री आर. के. बी. पटेल, अवर सचिव	011-26492171	श्रीमती विनोद कौतवाल, उप सचिव	0112-6491809
11	श्री अनन्दाधर बनर्जी, उपनिदेशक	011-26494591 anandadharbanerjee@nic.in	श्रीमती विनोद कौतवाल, उप सचिव	0112-6491809
12	श्री के. के. महेश्वरी, उप औद्योगिक सलाहकार	011-26493297 kkm@nic.in	श्री एन. एम. एल. भटनागर, उप सचिव	011-26497635 nmibhatnagar@rediffm ail.com
13	श्री जे. पी. मौर्या, सहायक औद्योगिक सलाहकार	011-26496510 JPMaurya@yahoo.com	श्री एन. एम. एल. भटनागर, उप सचिव	011-26497635 nmibhatnagar@rediffm ail.com
14	श्री के. एस. सेजवाल, सहायक औद्योगिक सलाहकार	011-264946304 karansejwal@yahoo.com	(i) श्रीमती विनोद कौतवाल, उप सचिव (ii) श्री एन.एम.एल. भटनागर, उप सचिव	(i) 011-26491809 (ii) 011-26497635
15	श्री ई. रॉबर्ट रिफ़्त, अपर सचिव	011-26492853 robertekangbong@yahoo. com.in	श्री सुधीर कुमार, निदेशक	011-26492248 sudhir.kumar@nic.in
16	श्री एम. मिह, वरिष्ठ लेखाधिकारी	011-26494504	श्री सुधीर कुमार, निदेशक	011-26492248 sudhir.kumar@nic.in

2. श्री अवधेश कुमार, निदेशक को उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। उनसे संयक्त के बारे में नीचे दिए गए हैं:

टेलिफोन नं-011-26492113

फैक्स नं-0112-6493228

ई-मेल- awdhesh.kumar@nic.in

3. श्री एन. एल. बड़ोदिया, अवर सचिव सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन-पत्र और श्रुत्युक्त प्रश्न करने के लिए नामित अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे और पूर्व अल्लिखित अनुसार, यदि विधिवत अधिनियम किसी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंध हो आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो वह श्री एन.एल. बड़ोदिया, अवर सचिव सामान्य प्रशासन को रिकार्ड के प्रयोजन हेतु उनकी एक प्रति देते हुए उन पर कार्रवाई करेगा। श्री एन. एल. बड़ोदिया, अवर सचिव से संपर्क करने के बारे में नीचे दिए गए हैं:-

टेलिफोन नं 011-26490503/011-26493228

फैक्स नं 011-26493228

शिशिह कुमार नंदा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर, 2008

संख्या ए-12022/1-2007 स्प. 1। राष्ट्रपति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री अनिल मेहता, आईओएस (88) को 8 सितम्बर, 2008 के पूर्वार्द्ध से संशोधित पे बेंच पीसी-4, 37,400-67,000/- -8700 रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2008

संख्या ए 12025/10/2007-सीएचएस I राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० नेहा अग्रवाल को दिनांक 28.04.2008 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० नेहा अग्रवाल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, काणपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्षों तक परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2008

सं० ए 12025/69/2001-सीएचएस IV राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० सुनीता यादव को 25 अक्टूबर, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-सर्वर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II, (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

जी०पी० राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

संख्या ए 12025/21/2006-सीएचएस IV राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० (श्रीमती) उपमा सबसेना को 21 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-सर्वर्ग में 10,000-325-15200/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड II (स्त्री रोग विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

जी०पी० राणा, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 2008

सं० ए 12034/2/2008-पी एच (खाद्य) (डी एफ यू सी) राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर डॉ० धीर सिंह, वरिष्ठ विश्लेषक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता को 27 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से अनुमत भत्तों सहित 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में उसी प्रयोगशाला में मुख्य तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' राजपत्रित) के कार्यात्मक पद पर नियमित आधार पर प्रोन्नत करते हैं।

2. तथापि, डॉ० धीर सिंह गैर-चिकित्सीय वैज्ञानिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग स्वस्थाने प्रोन्नति नियमावली, 1990 के अंतर्गत लाभ उठाने के कारण

अब से पहले की तरह 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में अपने वेतन एवं भत्ते प्राप्त करना जारी रखेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2008

सं० 27-2810/2008 स्था I राष्ट्रपति ने श्री एचएस लाम्बा, आई ए एस (इन्स्यू बी : 77) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर 22,400-525-24,500/- रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में 1 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

पी० विजयकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2008

सं० ए-19012/12-2008-ईए, राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई एस एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) स्तर के अधिकारी सुश्री राधा अम्ब आश्रित को रुपये 12,000-375-16,500 के वेतनमान में 24 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप सांख्यिकी सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी०के० राय, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं० 2-12/2008-मां प्रशा राष्ट्रपति, श्री पी०जे० जॉसेफ, मात्स्यिकी वैज्ञानिक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई बेस को 16.9.2008 पूर्वाह्न यानि नोटिस अवधि के पूरा होने पर सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करती है।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2008

सं० 2-6/2008-प्रशा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री यशपाल अरोड़ा का नाम वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें उक्त चयन सूची के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी सर्वर्ग में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त चयन सूची में श्री अरोड़ा का नाम शामिल किया जाना कार्मिक एवं प्रशिक्षण के विभाग दिनांक 12 अगस्त, 2008 के कां० जां सं० 5/25/2004-सीएचएस-I (एस) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं 2-6/2008-प्रशा: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री अरुण अग्रवाल का नाम वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परम्परागत रूप राष्ट्रपति उन्हें उक्त चयन सूची के अनुसार नियमित आधार पर प्रशिक्षण एवं बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं। उक्त चयन सूची में उनका नाम शामिल किया जाना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के आदेश सं: 3/25/2004-सो-एस-1 (एस) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं 2-6/2008-प्रशा: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री नारायण दास का नाम वर्ष 2004 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परम्परागत रूप राष्ट्रपति उन्हें उक्त चयन सूची के आधार पर सहित एवं बाल विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त चयन सूची में श्री नारायण दास का नाम शामिल किया जाना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के आदेश सं: 6/3/2006-सो-एस-1 (एस) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : सितम्बर, 2008

सं ए 20011/2008-स्थापना/पुस्तकालय: सहायक पुस्तकालय एवं ग्रंथालय अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय, श्री एस. एक लोको अभिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर 31.8.2008 (अपगहन) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

आभा मिश्रा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं 17015/08-2008-आर-आर्डी सैल: राष्ट्रपति श्री डी. पी. सिंह, आई. ए. एस. (यूपी-80) का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में 8.9.2008 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 01.11.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नोर्माबुद्ध शर्मा, निदेशक

राष्ट्रीय डाक विभाग

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म.प्र. परिमंडल

विषय: म.प्र. परिमंडल में सहायक डाक अधीक्षक की पदोन्नति तथा पदस्थापना

सं स्टाफ 18-2/एएमबी/08 भोपाल दिनांक 25/9/2008 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म.प्र. डाक परिमंडल भोपाल द्वारा निम्नलिखित डाकघर निरीक्षकों को रु० 6500-3000-10500 (पुनरीक्षण पूर्व) के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक डाक अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेश तक जारी रहेगी।

2. सहायक डाक अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों को निम्नलिखित क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं:-

क्रमांक	नाम	अर्जा/अ. ज. जा	वर्तमान संभाग/कार्यालय	आवंटित क्षेत्र
1.	श्री आरुण अग्रवाल	-	जबलपुर	इंदौर
2.	श्री आर.एस. चौहान	-	छतरपुर	मुख्यालय
3.	श्री आर.एस. खुशहा	-	आर.ओ. इंदौर	इंदौर
4.	श्री जे.के. कावरे	-	जबलपुर	मुख्यालय
5.	श्री आर.डी. बोरधे	-	उज्जैन	इंदौर

3. सामान्य निर्देश:-

(i) पुनर्आवेदन हेतु प्राप्त किसी भी प्रकार के आवेदन पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा, एक वर्ष की अवधि में लगे गई छुट्टियों की गणना नहीं की जाएगी।

(ii) संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट की एक प्रति सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला), परिमंडल कार्यालय भोपाल को भेजें।

(iii) वरिष्ठता अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15 दिन के अंदर भेजे जाने चाहिए।

(iv) इंदौर परिक्षेत्र के लिए आवंटित अधिकारियों के तैनाती आदेश सहायक निदेशक (अमला), इंदौर परिक्षेत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

(v) तैनाती आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अधिकारियों को कार्यपुस्तक किया जाए।

(vi) यदि कोई अधिकारी इस पदोन्नति हेतु अनिच्छुक है तो वह अपनी असहमति लिखित रूप में परिमंडल कार्यालय भोपाल को तैनाती आदेश जारी होने से 30 दिन के भीतर भेजे अथवा यह समझा जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है।

4. सतर्कता/अनुशासनात्मक प्रकरण: यदि कोई हो—

कर्मचारी के संबंध में कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित होने पर इस कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बिना उसे कार्यपुस्तक नहीं किया जाए। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध दण्ड जारी है, तो उसे दण्डावधि समाप्त होने से पूर्व पदोन्नत न किया जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जानी चाहिए।

## 6. वेतन निर्धारण का विकल्प:

यदि अधिकारी एफ०आर० 22(1) (a) (1) के तहत अपने वेतन तिथि का निर्धारण चाहता है, तो वह पदोन्नति से एक माह के भीतर इस संबंध में अपना विकल्प दे सकता है। ए०सी०पी० योजना के तहत जिन कर्मचारियों को दूसरी वित्तीय क्रमोन्नति मिल चुकी है वे ए०एस०पी० संघर्ष में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु पात्र नहीं हैं। सी०डी० मंदसोरवाले, सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2008

सं० ई० आर० बी०-1/2007/10/4 रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्तिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2008 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए:—

क्र०सं०	नाम (श्री/सर्वश्री)	
1.	श्री महावीर प्रसाद	अपर सदस्य (सिग्नल)
2.	श्री एम०एस० अग्रवाल	अनुभाग अधिकारी

मैथ्यू जॉन, सचिव,  
रेलवे बोर्ड

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

सं० 25/11/2005- आर०एंड०आर० (VbL II) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री एस० जयरामन को 11 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2008

सं० ए-19011/1/2007-प्रशा० I: राष्ट्रपति, श्री एस० कृष्णन, आई०ए०एस० (यूएल: 75), अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की 12 सितम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उनके वर्तमान पद के स्वस्थाने (इन-सीटू) डनयन द्वारा 80,000/- रु० (नियत) के शीर्ष वेतनमान में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अपर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd September, 2008

No.RS/3/2008/62-Perl. The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Ms. Sadina Kumari, Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Reporter in the Pay Band of Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 6600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd September, 2008, until further orders.

C.B. RAI, Joint Director

—

No.RS/3/6(1)/2008/63-Perl. The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ram Dev, Senior Printing Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Printing Officer in the Pay Band of Rs. 9300-34800+Grade Pay of Rs. 5400 (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd September, 2008, until further orders.

C.B. RAI, Joint Director

—

New Delhi-110001, the 29th September, 2008

No.RS/6/2/2008/64-Perl. In supersession of Rajya Sabha Secretariat Notification No. RS/6/2/2008-60-Perl. dated 4th September, 2008, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rakesh Singh, IAS (KN: 89) as OSD in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha in the Pay Band of Rs. 37400-67000+Grade Pay of Rs. 10000 (provisional) pre-revised Rs.18400-500-22400 with effect from the forenoon of the 3rd September, 2008.

2. The appointment of Shri Rakesh Singh is at the discretion of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

C.B. RAI, Joint Director

—

New Delhi-110001, the 13th May, 2008.

No.PF.794-R(3)/GN-6049/AN-I/2008 On reversion from deputation to Department of Panchayat Raj and Rural Development, Government of Andhra Pradesh, Smt G. Ranga Rao has resumed duty in this Secretariat as Joint Director (LARRD/S) Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-375-16500 with effect from the forenoon of 7th May, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

—

New Delhi-110001, the 6th June, 2008.

No.PF.24-R(3)/GN-6053/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri U.S. Saxena, Director in the scale of pay of

Rs.15100-18300 as Joint Secretary in the scale of pay of Rs.18400-500-22400 on *ad-hoc* basis with effect from 6th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

—

New Delhi-110001, The 12th June, 2008

No.PF48-R(3)/GN-6055/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Smt. Veena Sharma, Deputy Secretary Grade-I in the scale of pay of Rs. 12750-16500, who was appointed as Director on *ad-hoc* basis *vide* Notification No. GN-6025 dated 29th February, 2008, to the grade of Director in the scale of pay of Rs.15100-400-18300, on regular basis with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

—

No.PF.76-R(3)/GN-6056/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-16500 to the grade of Deputy Secretary Grade-I in the scale of pay of Rs.12750-375-16500, in order as shown below, with effect from 11th June, 2008 until further orders:—

1. Shri D.R. Shekhar
2. Shri J.M. Dasakhi
3. Dr. Ram Raj Rai
4. Shri N.K. Pandey

ABHIJIT KUMAR, Director

—

No.PF.122-R(3)/GN-6057/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri Basudeo K. Gupta, Under Secretary in the scale of pay of Rs.10000-15200 to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-375-16500 with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

—

No.PF.169-R(3)/GN-6058/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri Muralidharan P., Executive Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 who was appointed as Under Secretary on *ad-hoc* basis *vide* Notification No. GN-5987 dated 27th November, 2007, to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, on regular basis with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

—

No.PF.170-R(3)/GN-6059/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Executive Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the



grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, in the order as shown below, with effect from 11th June, 2008 until further orders:—

1. Dr. (Smt.) Sagarika Dash
2. Shri Maheshwar

ABHIJIT KUMAR, Director

No.PF.843-R(3)/GN-6060/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Assistants in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Research/Reference Officer in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 11th June, 2008 until further orders:—

1. Dr. Tushar Kant
2. Ms. Madhu Dhawan
3. Smt. Poonam Kataria
4. Mohd. Sharaf
5. Smt. Arita Kaushik
6. Shri Ishfaq Ahmad
7. Shri Sham Lal

2. They will be on probation in the grade of Research/Reference Officer for a period of two years with effect from 11th June, 2008 upto 10th June, 2010.

3. Their *inter-se* seniority in the grade of Research/Reference Officer will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ABHIJIT KUMAR, Director

No.PF.962-R(3)/GN-6061/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri Chakrapani Mishra, Parliamentary Reporter Grade-II in the scale of Pay of Rs.8000-13500 to the grade of Parliamentary Reporter Grade-I in the scale of pay of Rs.10000-325-15200 with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No.PF.974-R(3)/GN-6062/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri V.K. Lamba, Joint Director (PSS) Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-16500 to the grade of Joint Director (PSS) Grade-I in the scale of pay of Rs.12750-375-16500 with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No.PF.990-R(3)/GN-6063/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Smt. Usha Raghunathan, Senior Private Secretary

in the scale of Pay of Rs.10000-15200 to the grade of Joint Director (PSS) Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-375-16500 with effect from 11th June, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No.PF.1207-R(3)/GN-6064/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Managers of Printing in the scale of Pay of Rs.8000-13500 to the grade of Assistant Director (Printing & Publication) in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, in the order as shown below, with effect from 11th June, 2008 until further orders:—

1. Shri Ved P. Nauriyal
2. Shri Satish Kumar Sharma

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 13th June, 2008.

No. F. 15/26/2008/GN-6066/AN-I Shri Bhupendra Kainthola (IRLA No. 13516), a JAG (NFSG) officer of IIS Group 'A' who is presently working as Executive Director (Programmes) in the Lok Sabha Satellite Television Channel on deputation basis is relieved of his duties with effect from the afternoon of 13th June, 2008 and thereafter his services are placed at the disposal of Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F. 15/26/2008/GN-6067/AN-I Smt. Sheyphali B. Sharan (IRLA No. 13709), a JAG (NFSG) Officer of IIS group 'A' who is presently working as Director in the Lok Sabha Satellite Television Channel on deputation basis is relieved of her duties with effect from the afternoon of 13th June, 2008 and thereafter her services are placed at the disposal of Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F. 15/2/GN-6070/2008/AN-I Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II (English/Hindi) on the basis of written examination, stenography test and personal interview held on 9th February, 2008, 10th February, 2008 and 13th February, 2008 respectively, the Speaker is pleased to appoint Shri Chandar Shekher Singh to the grade of Parliamentary Reporter Grade-II (English/Hindi) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd June, 2008 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 03.06.2008 upto 02.06.2010.

3. His *inter se* seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ABHIJIT KUMAR, Director

— — — — —  
New Delhi the 15th July, 2008.

No. PE.123-R(3)/GN-6073/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint **Sri R.K. Suryanarayanan**, Under Secretary in the scale of Pay of Rs. 10000-15200 to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 14th July, 2008 until further Orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1359-R(3)/GN-6074/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint **Sri B.K. Pathak**, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-13500 who was appointed as Editor on *ad-hoc* basis vide Notification No. GN-5999 dated 27th November, 2007, to the grade of Editor in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, on regular basis with effect from 14th July, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1360-R(3)/GN-6075/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Editor in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, in the order as shown below, with effect from 14th July, 2008 until further orders:

1. **Sri Ram Avatar**
2. **Sri S.S. Chhaban**
3. **Smt. Manisha Tiwari**
4. **Smt. Kirti Prabha**
5. **Sri Sukhdev Gupta**
6. **Sri Mahavir Singh**
7. **Sri Nareesh Mishra**

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1368-R(3)/GN-6076/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Editor in the scale of pay of Rs.10000-325-15200 on *ad-hoc* basis with effect from 14th July, 2008 until further orders: —

1. **Sri Rakesh M. Chandra**
2. **Sri Ashok Kumar Jaiswal**
3. **Sri Balwan Singh**

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1411-R(3)/GN-6077/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Translators in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 in an officiating capacity, in the order as shown below, the effect from 14th July, 2008 until further orders:

1. **Sri Ran Vijay Kumar Rao**
2. **Sri Kailash Misra**
3. **Smt. Pratibha Kashyap**
4. **Ms. Meenakshi Rawat**
5. **Sri Anil Kumar Nirvan**
6. **Sri Akashdeep Shanker**
7. **Sri Rajendra Singh**

2. They will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 14th July, 2008 upto 13th July, 2010.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1420-R(3)/GN-6078/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint **Sri Laxman Prasad**, Translator in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 on *ad-hoc* basis with effect from 14th July, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PE.1189-R(3)/GN-6079/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Interpreters Grade-II in the scale of pay of Rs 8000-13500 to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-I in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, in the order as shown below, with effect from 14th July, 2008 until further orders: —

1. **Sri Nafis Ahmad**
2. **Ms. Alakanjona Banerjee**
3. **Smt. Babita Singh Parasain**

ABHIJIT KUMAR, Director

— — — — —  
New Delhi the 16th July, 2008.

No. PE.924-R(7)/GN-6081/AN-I/2008 The Speaker is pleased to grant the first financial upgradation (FU) to **Sri K.V. Jagannatha**, Joint Director (Reporting) Grade-II in the scale of pay of Rs.12000-16500 who is presently on deputation as Personal Assistant to Governor of Karnataka and Officer on Special Duty, Raj Bhavan, Bangalore by his Placement in the next higher scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on personal basis with effect from 1st July, 2008 under the Assured Career progression Financial Upgradation Scheme.

2. Grant of first financial upgradation/placement in the higher scale of pay to Shri K.V. Jagannatha will be regulated in accordance with the provisions contained in the R&CS Order No. PDA-1042/2001 dated the 05th October, 2001.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi the 18th July, 2008.

No. F.15/7/2008/GN-6082/AN-I Consequent upon his selection to the post of Chief Executive, Lok Sabha Television Channel on the basis of interview held on 11th July, 2008, the Speaker is pleased to appoint Shri Sunit Tandon, General Manager, National Film Development Corporation Ltd., New Delhi who is presently working as Executive Director [Marketing] in Lok Sabha Satellite Television Channel on deputation basis, as Chief Executive, Lok Sabha Television Channel in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500 on deputation basis with effect from 18th July, 2008 upto 17th July, 2011 or until further orders, wherever is earlier.

2. Shri Sunit Tandon stands relieved from the post Executive Director [Marketing] with effect from the forenoon of 18th July, 2008.

3. The terms and conditions of deputation of Shri Sunit Tandon shall be regulated in accordance with the orders of DOPT OM No. 2/29/91 - Estt. (Pay-II) dated 5th January, 1994 as adopted by Lok Sabha Secretariat vide R&CS Order No. Misc. 54/95 dated 10th October, 1995 as amended from time to time.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi the 31st July, 2008.

No. PF. 1752-R(3)/AN-I/GN-6088/2008 Shri V.K. Sharma, Area Organiser of SSB who is presently working as Joint Director (Technical) in Lok Sabha Secretariat on deputation basis is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 31st July, 2008 and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Directorate General SSB, New Delhi.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi the 4th August, 2008.

No. PF.124-R(3)/GN-6089/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint Shri Santosh Kumar, Under Secretary in the scale of pay of Rs.10000-15200 to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 1st August, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1005-R(3)/GN-6090/AN-I/2008 The speaker is pleased to appoint the following Private Secretaries in the scale of pay of Rs.8000-13500 to the grade of Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs.10000-325-15200, in the order as shown below, with effect from 1st August, 2008 until further orders:—

1. Smt. Sushma Garg
2. Smt. Alka Khanduja
3. Shri J.P. Badoni
4. Shri Vinay Dua
5. Shri Harish Kumar
6. Smt. Anu Bhaita

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF 1032-R(3)/GN-6091/AN-I/2008 The Speaker is pleased to appoint the following Senior Personal Assistants in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Private Secretary in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 1st August, 2008 until further orders:—

1. Smt. Rachna Gautam
2. Smt. Sunita Bhorla
3. Smt. Kavita Bhoet
4. Smt. Kawaljit Kaur
5. Shri Brahm Prakash

2. They will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of two years with effect from 1st August, 2008 upto 31st July, 2010.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi the 18th August 2008.

No. PF 78-R(3)/GN-6093/AN-I/2008 Dr. Ram Raj Rai, Deputy Secretary is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 18th August, 2008 and thereafter his services are placed at the disposal of Ministry of Minority Affairs for his appointment as Private Secretary on the personal staff of Hon'ble Minister of Minority Affairs (Shri A.R. Antulay) on deputation basis.

ABHIJIT KUMAR, Director

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd September, 2008.

No. A-32013/7/2004-Ad.1 The President is pleased to appoint Shri Devender Kumar Sikri, IAS(GJ:75), as Registrar General of India, Ministry of Home Affairs by in-situ upgradation of the post held by him in the rank and pay of Secretary w.e.f. 12th September, 2008 (AN).

J.B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 23 September, 2008.

No. A-20/G/2813-Ad. I The President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, IAS (KN-75), Additional Secretary to the Ministry of Home Affairs as Special Secretary by in-situ upgradation of the post held by him w.e.f. 12th September, 2008 (AN).

J.B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 19th September, 2008.

No. 14031/5-2008-LTS. I The President is pleased to permit Shri C. Ropianga, an Indian Administrative Service officer of 1991 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with effect from the afternoon of 15th September, 2008 in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 24 September, 2008.

No. PF/G/87-Ad. V Consequent on his repatriation from the post of Assistant Private Secretary to Leader of Opposition, Lok Sabha Shri S.N. Joshi, Protocol Officer has been taken on the rolls of Ministry of Home Affairs w.e.f. 1-9-2008 (PN).

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

New Delhi, the 24th September, 2008.

No. I-11014/2-2008-IPS.IV In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and the with the concurrence of the Governments of Tripura, Manipur and Chhattisgarh, the Central Government hereby transfer Shri Shaikh Anil Hosen, IPS (MT: 2005), from Manipur-Tripura to the IPS Cadre of Chhattisgarh on the ground of his marriage with Ms. Shanani Abidi, IAS (CG: 2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 30 September, 2008.

No. I-14011/14-2007-IPS.II In exercise of the powers contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 24.09.2008, approved the Select List of 2007, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 18.12.2007, containing the names of the following State Police Service Officers of Madhya Pradesh, towards filling up three substantive vacancies during 2007 in the IPS Madhya Pradesh Cadre:

#### SELECT LIST-2007

S.No.	Name (S. Shri)	Date of Birth
1.	Manohar Singh Janra (S.I)	13.11.1955
2.	S.P. Singh (ST)	10.10.1960
3.	Jitendra Singh Kushwah	19.09.1961

O.S. ASHOK Under Secretary

New Delhi, the 30 September, 2008.

No. I-114011/14-2007-IPS.I (II) In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Madhya Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this Notification.

#### SELECT LIST-2007

S.No.	Name (S. Shri)	Date of Birth
1.	Manohar Singh Janra	13.11.1955
2.	S.P. Singh	10.10.1960
3.	Jitendra Singh Kushwah	19.09.1961

O.S. ASHOK, Under Secretary

New Delhi, the 30 September, 2008.

No. I-114011/32-2007-IPS.I Consequent upon the decision dated 24.09.2008 of Union Public Service Commission to declare the inclusion of the name of Sh. C. Rajagopal (Date of Birth: 10.03.1953) as unconditional in the Select List of 2007 prepared, for promotion of State Police Service officers of Kerala to Kerala Cadre of Indian Police Service, by the Selection Committee in its meeting held on 23.06.2008 and approved by the Commission on 30.07.2008 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Sh. C. Rajagopal (Date of Birth: 10.03.1953), a member of Kerala Police Service to the Indian Police Service on Probation and to allocate him to the cadre of Kerala under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of his notification.

O.S. Ashok, Under Secretary

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 24th September, 2008

No. 24012/16/2008-AIS(II) The President is pleased to accept the resignation of Shri T. Chandra Shekhar, IAS (Mti-87).

a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Maharashtra, with effect from the date of issue of the notification.

HARJOT KAUR, Director (Services)

(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 23rd September, 2008.

No. 41/27/07-P&PW(C) In terms of Section 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and in super cession of all the earlier notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare in the matter, the competent authority in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare hereby designate the following officers as Central Public Information Officer and Appellate Authority in respect of the subject matter specified against their names:

S.No.	Name and Designation of the Central Public Information Officer	Tel. No.	Subject Matter	Name of Appellate Authority with Designation/Tele. No.
1.	Shri Harjit Singh, Under Secretary (Desk 'A')	24644634	Matters relating to all aspects of Pension; proposals regarding introduction of pension scheme for PSUs/Autonomous Bodies; Pension Act and Rules frames there under.	Shri M.P. Singh, Director (PP) Tele: 24624802
2.	Shri Rajan Sood, Section Officer (Desk 'F')	24644631	All aspects relating to Retirement/Death Gratuity; Pension for temporary/quasi-permanent employees; GPF/CPF Retirement benefits to officers of Constitutional/Statutory Authorities; EOP.	Shri M.P. Singh, Director (PP) Tele: 24624802
3.	Shri V.K. Wadhwa, Under Secretary (Desk 'G')	24644637	(a) All Matters relating to Dearness Relief; Commutation of Pension; Pension Fund Plan; SCOVA; mode of payment of pension. (b) All personnel, administration, establishment, Cash/budget matters of employees of the Department of Pension and Pensioners' Welfare.	Shri M.P. Singh, Director (PP) Tele: 24624802  Shri K.S. Chibb, Deputy Secretary Tele: 24635979
4.	Shri Amitabh Dwivedi, Under Secretary (Desk 'D')	24644636	All matters relating to permanent absorption of Central Government Employees in PSUs/Autonomous Bodies; Medical Facilities to Central Government Pensioners; Grievances in non-retirement benefit matters.	Shri Geeta Ram, Director (PW) Tele: 24624752
5.	Shri N.M. Ranganathan, Under Secretary (Desk 'B')	24635754	Matters relating to all aspects of qualifying service; Sharing of pensionary liability between Central and State Government; Ex-Burma/Goa/Pondicherry pensioners.	Shri Geeta Ram, Director (PW) Tele: 24624752
6.	Smt. Geetha Nair, Under Secretary (Desk 'E')	24644632	Matters relating to family pension under CCS (Pension) Rules, 1972; ex-gratia payment to CPF retirees and their families.	Shri K.S. Chibb, Deputy Secretary Tele: 24635979
7.	Shri Sukar Singh, Under Secretary (Desk 'C')	24644847	Pensioners' Grievances	Shri K.S. Chibb, Deputy Secretary Tele: 24635979
8.	Shri R.S. Jayal, Under Secretary (Desk 'H')	24652985	Matters concerning use of Hindi in Official Work/Coordination/Information Facilitation Centre.	Shri K.S. Chibb, Deputy Secretary Tele: 24635979

SUKAR SINGH, Under Secretary

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th September, 2008

No. 45 of 2008 (F.No. A-38012/30-2008-Adm.II) The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement of Shri N.B. Deshmukh, Assistant Commissioner, Swat with effect from 08.10.2008 (AN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

S.K. DEB, Under Secretary

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 11th September, 2008

No. A-22011/2-2008-Adm.IA: The President is pleased to appoint Ms. Rose Mary Abraham (IES), a Junior Time Scale officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 (pre-revised) with effect from the forenoon of 1st September, 2008 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secretary

New Delhi, the 18th September, 2008

No.A-12011/5-2008-AD-I-A- The President is pleased to appoint Shri Rajeev Nayan Sharma, working in the Western Railways to the post of Deputy Director (Budget & Accounts), Group "A" Gazetted in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 on ad hoc Deputation basis for a period from 9th September, 2008 (FN) upto 19.06.2009.

The above adhoc appointment will not confer any right for regularization or for benefits such as seniority etc. on a future date.

NEELAM VOHRA, Under Secretary

New Delhi, the 16th September, 2008

No.A-19011/2-2007-Adm.II. In supersession of this Department's earlier Notification of even number dated 15th September, 2008, the President is pleased to appoint Ms. Sindhushree Khullar, IAS (UT-75), Additional Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), as Special Secretary in the pay of Secretary in the same Department by in-situ upgradation of the post held by her w.e.f. 12th September, 2008 (FN) and until further orders.

S.K. VERMA, Director

New Delhi, the 17th September, 2008

No.A-19011/15-2008-Adm.II. The President is pleased to appoint Shri Ashok Chawla, IAS (GJ-73) as Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance w.e.f. 17th September, 2008 (FN) and until further orders.

S.K. VERMA, Director

New Delhi, the 22nd September, 2008

No.A-22011/2-2008-Adm.II. In pursuance of O.M.No. 32014/1/2007-CAS dated 17.09.2008 of department of Expenditure (CAS) the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer in the pay scale of Rs. 9500-34,800 + Rs. 4,800/- (Grade pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, department of Economic Affairs with effect from the date as indicated against each official, purely on ad-hoc basis, upto 31.12.2008 or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the Officials	Date of their Appointment as SO
1.	Smt. Sadhna Sharma	17.09.2008 (FN)
2.	Smt. Neelam Sibal	17.09.2008 (FN)
3.	Smt. Dayal Kamari Kalia	17.09.2008 (FN)
4.	Shri Sanjay Kumar Jha	17.09.2008 (FN)
5.	Smt. Sarita Gidlati	17.09.2008 (FN)
6.	Shri Bhaskar Chakrabarti	17.09.2008 (FN)
7.	Shri Bhola Nath Saini	17.09.2008 (FN)
8.	Shri Manoj Manu	17.09.2008 (FN)
9.	Shri Gautam Kumar Yadav	17.09.2008 (FN)
10.	Shri J.L. Jain	17.09.2008 (FN)
11.	Smt. Neera Baidhiraja	17.09.2008 (FN)
12.	Shri Ashok Kumar	17.09.2008 (FN)
13.	Shri K.L. Meena (ST)	17.09.2008 (FN)

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section officer will be subject to the following terms and conditions:-

a. Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

b. Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

V. RAMKUMAR, Under Secretary

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 14th August, 2008

No.A-19014/11/2008-DRT-The Central Government is pleased to appoint Shri Ram Bhushan Trivedi, Senior Manager (Law), Bank of India to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15, 200/- for a period of three years w.e.f. 01.07.2008 or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secretary

No.A-19015/5/2008-DRT-The Central Government is pleased to appoint Shri Binod Kumar Sharma, Chief Manager, Punjab National Bank, to the post of assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 15.05.2008 or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secretary

New Delhi, the 22nd August, 2008

No. 13/6/2003-DRT-In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri C.P.S. Ramacharyulu, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Chennai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Chennai, in addition to his own charge.

A. THOMAS, Under Secretary

New Delhi, the 15th September, 2008

No.A-15012/4/2007-DRT-In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K.J. Paratwar, as Presiding Officer of debts Recovery Tribunal-II, Mumbai, for a period of five years with effect from 22nd August, 2008 (Forenoon) or till he attains the age of 62 years, or till further orders, whichever is the earliest.

A. THOMAS, Under Secretary

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 23 September, 2008

No. A-32014/1/2006-Ad.I: The President is pleased to appoint Shri R. Thyagarajan, Stenographer Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno. Grade

A&B (merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on regular promotion to the grade of Steno. Grade A&B (Merged) of CSSS against the Select List year of 2003 with effect from the forenoon of 28th August, 2008.

2. Shri R. Thyagarajan will be on 'trial' for a period of two years from the date of appointment, as laid down in the CSSS Rules.

MEETALI GHOSH, Under Secretary

New Delhi, the 24 September, 2008

No.A-12026/4/2008-Ad.I: The President is pleased to appoint the following ad-hoc Section Officers of Central Secretariat Service for regular promotion to the Section Officers' Grade of CSS against the Seniority Quota vacancies, in the pay scale of Rs. 9300-34800/-with effect from the date mentioned against their name and until further orders:

Sl.No.	Name(S/Sh/Ms.)	Date of taking charge of the post of Section Officer on regular basis	Select List Year
1.	Ashwani Kumar Sehgal	Retired on 31.08.2007 (FN)	2003
2.	B.B.Baseshankar	10.09.2008	2003
3.	Saheb Singh	10.09.2008	2003
4.	Sandeep Verma	10.09.2008	2003
5.	Ram Kanwar	10.09.2008	2003
6.	H.C. Arora	Retired on 31.08.2008(FN)	2004
7.	A.L. Madan	10.09.2008	2004
8.	Shashi Trehan	10.09.2008	2004
9.	K.N. Bahuguna	10.09.2008	2004
10.	Anita Mahendru	15.09.2008	2004
11.	B.M. Singh	10.09.2008	2004

2. The officers shall be on 'trial' for a period of two years from the date of their appointment, as laid down in the CSS Rules.

3. The appointment is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAJ, Delhi. Further, financial benefits if any, like NFS granted to officials shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

MEETALI GHOSH, Under Secretary

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 18th September, 2008

Petroleum and Natural Gas on regular basis w.e.f. 12th August 2008 for the Select List Year, 2005.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secretary

No. A-22015-199-E-II: In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18/2005-CS, II dated 12th August, 2008, the President is pleased to appoint Shri M.C. Sharma, Sr. PPS (ad-hoc) in the Ministry of Textiles, on regular basis in the Select List Year 2005 of Senior Principal Private Secretary Grade of CSSS cadre of the Department of Commerce w.e.f. the 12th August, 2008.

RAM LAKHAN, Under Secretary

New Delhi, the 5th September, 2008

No. A-32011-16-2004-E-stt. In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 7/5/2008-CS, I dated 14th August, 2008, the President is pleased to appoint Shri Basant Kumar [SL-1995/Gent.] of Central Secretariat Service (CSS) borne on the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas as Section officer in this Ministry on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 1st September, 2008 (FN) for a period upto 31st December, 2008 or till regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Basant Kumar to the post of Section Officer is purely ad-hoc in nature and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the post of Section Officers grade of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secretary

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 29th August, 2008.

No. A-19011-14-2005-E-stt. In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18/2005-CS, II dated 12th August, 2008, the President is pleased to appoint Shri S.K. Dang as Senior Principal Private Secretary in the pay scale of 12000-16500 borne on the CSSS cadre of Ministry of

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 4th September 2008

No. A-42013-3-2005-Admn. In supersession of this Ministry's Notification of even number dated 12.3.2008 and in accordance with the provisions contained in Section 5 (1) and Section 19 (1) of the Right to Information Act 2005, the Competent Authority of this Ministry hereby designate the following officers as Central Public Information Officers/Appellate Authorities in respect of works allocated to them in this Ministry, vide copy of work allocation enclosed. The details regarding their names, designation and telephone/fax numbers are indicated below:

Sl. No.	Name and Designation of the officer Nominated as CPIO	Telephone No./E-Mail if any of the officer Nominated as CPIO	Name and Designation of the officer nominated as appellate authorities in respect of CPIOs mentioned in column-2	Telephone No./E-Mail if any of the officers nominated as appellate authorities mentioned in column-4
1	2	3	4	5
1.	Sh. S. K. Nanda, Under Secretary	011-26496506 sknanda-62@indiatimes.com	Shri Sarvesh Kumar, Deputy Secretary	011-26493224
2.	Sh. S. I. Banerjee, Under Secretary	011-26496505	-do-	-do-
3.	Sh. Kashi Nath, Under Secretary	011-26497637, Fax: 304	Smt. Rupali Banerjee Singh, Deputy Secretary	011-26499433 rupali-banerjee@me.in
4.	Smt. Savitri Yadav, Assistant Director, official language	011-26491859	Shri Sarvesh Kumar, Deputy Secretary	011-26493224



1	2	3	4	5
5.	Sh. S. K. Singh, Under Secretary	011-26493680	Sh. Awdhesh Kumar, Director	011-26492113 awdhesh.kumar@nic.in
6.	Sh. S. K. Mohanty, Under Secretary	011-26492174	-do-	-do-
7.	Sh. Surender Singh, AIA	011-26493297	-do-	-do-
8.	Sh. B. K. Jain, Assistant Director, (ISS)	011-26492216, Ext. 1401	-do-	-do-
9.	Sh. S. P. Madan, Under Secretary	011-26492078 satyaprakashmadan@yahoo.com	Sh. N. M. L. Bhatnagar, Deputy Secretary	011-26497635 nmlbhatnagar@rediffmail.com
10.	Sh. R. K. B. Patel, Under Secretary	011-26492174	Smt. Vinod Kotwal, Deputy Secretary	011-26491809
11.	Sh. Anindya Banerjee, Deputy Director	011-26494591 anindya.banerjee@nic.in	-do-	-do-
12.	Sh. K. K. Maheshwary, DIA	011-26493297 kkm@nic.in	Sh. N. M. L. Bhatnagar, Deputy Secretary	011-26497635 nmlbhatnagar@rediffmail.com
13.	Sh. J. P. Maurya, AIA	011-26496510 JPMaurya@nic.in	-do-	-do-
14.	Sh. K. S. Sejwal, AIA	011-26496504 karansejwal@yahoo.com	i. Smt. Vinod Kotwal, Deputy Secretary ii. Sh. N. M. L. Bhatnagar, Deputy Secretary	i. 011-26491809 ii. 011-26497635
15.	Sh. E. Robert, Singh Under Secretary	011-26492851 robertelangbam@yahoo.com.in	Sh. Sudhir Kumar, Director	011-26492248 sudhir.kumar@nic.in
16.	Sh. Bhoop Singh, Sr. AO	011-26496504	-do-	-do-

2. Shri Awdhesh Kumar, Director has been nominated as the Nodal Officer for implementation of the above Act. His contact details are given below:

Tele. No. 011-26492113; Fax No.: 011-26493228  
Email: awdhesh.kumar@nic.in

3. Shri S. L. Barodia, Under Secretary will remain as designated officer to receive applications and fees under the RTI Act and as earlier, if an application is received by a Central Public Information Officer duly notified directly he shall process the same giving a copy of Shri S. L. Barodia, Under Secretary, General Administration for purpose of record. The contact details of Shri S. L. Barodia, Under Secretary are given below:

Tele. No. 011-26496505/011-26493228  
Fax No. 011-26493228

S. K. NANDA, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS  
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION  
(Department of Food & Public Distribution)  
New Delhi, the 19th September, 2008

No. A-12022/1/2007-E-1: The President is pleased to appoint Shri Amit Mehta, IOFS (88) as Director in the Department of

Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 8th September, 2008 in the Revised Pay Band PB-4 Rs. 37,400-67,000+8,700.

KULDEEP KUMAR, Under Secretary

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th September, 2008

No. A-12025/10/2007-CHS-I: On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Neha Agarwal to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 28.04.2008 until further orders. Dr. Neha Agarwal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Kanpur. She would be on probation for a period of two years.

SMT. MAYA PRAKASH, Under Secretary

New Delhi, the 22nd September, 2008

No. A-12025/69/2001-CHS-IV: On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased

to appoint Dr. (Smt.) Sunita Yadav to the post of Specialist Grade II (Obst. & Gynaec.) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 25th October, 2002 until further orders.

V.P. RANA, Under Secretary

New Delhi, the 23rd September, 2008

No. A.12025-21-2006-UHS.IV. On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Upma Saxena to the post of Specialist Grade II (Gynaecology) in the scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of the 21st November, 2006 until further orders.

V.P. RANA, Under Secretary

#### (DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 10th September, 2008

No. A.12034.2-2008-PH(Food)[DFQC]: On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to promote Dr. Dhir Singh, Senior Analyst, Central Food Laboratory, Kolkata to the functional post of Chief Technical Officer (Group 'A' Gazetted) in the same Laboratory in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 plus admissible allowances, on a regular basis with effect from the forenoon of 27th August, 2008.

2. Dr. Dhir Singh will, however, continue to draw his pay and allowances in the scale of Rs. 14300-400-18300 as hitherto on account of his availing the benefits under the Department of Health In-Situ Promotion Rules, 1990 for Non-Medical Scientists.

SUDHIR KUMAR, Under Secretary

#### MINISTRY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

New Delhi, the 1st September, 2008

No. 27-2810-2008-E.I: The President is pleased to appoint Shri A.S. Lamba, IAS (WB/77) as Additional Secretary & Financial Advisor in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- (pre-revised) w.e.f. the forenoon of 1st September, 2008, for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secretary

New Delhi, the 22nd September, 2008

No. A-19012-12-2008-FA: The President is pleased to appoint Ms. Radha R. Asriti, a Junior Administrator Grade

(JAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Deputy Statistical Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 24th July, 2008.

D.K. ROY, Under Secretary

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 23rd September, 2008

No. 2-12/2008-Fy Admin: The President is pleased to allow Shri P.J. Joseph, Fisheries, Scientist of Fishery Survey of India, Mumbai Base to retire voluntarily from Government Service on 16.09.2008 P.N. i.e. on completion of the notice period.

SUDEEPA KOHIL, Under Secretary

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th September, 2008

No. 2-6/2008-Admin: Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003, the President is pleased to appoint Shri Yashpal Arora of the Central Secretariat Service to the Section Officer Grade of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development against the said Select List. The inclusion of his name is subject to the conditions laid down in Department of Personnel and Training's OM No. 5/25/2004-CS.I(S) dated 12th August, 2008.

SMT. SHAKUNTALA JAIN, Under Secretary

No. 2-6/2008-Admin: Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003, the President is pleased to appoint Shri Arun Aggarwal of the Central Secretariat Service to the Section Officer Grade of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development against the said Select List. The inclusion of his name is subject to the conditions laid down in Department of Personnel and Training's OM No. 5/25/2004-CS.I(S) dated 12th August, 2008.

SMT. SHAKUNTALA JAIN, Under Secretary

No. 2-6/2008-Admin: Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2004, the President is pleased to appoint Shri Naram Das of the Central Secretariat Service to the Section Officer Grade of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development against the said Select List. The inclusion of his name is subject to the conditions laid down in Department of

Personnel and Training's OM No. 6/3/2006-CS.I(S) dated 12th August, 2008.

SMT. SHAKUNTALA JAIN, Under Secretary

### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 1st September, 2008

No. A.20011/2/93-Estt/Lib.: Shri S.N. Joshi, Assistant Library & Information Officer, Ministry of Culture, retired from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.08.2008(AN).

ABHA MISHRA, Under Secretary

### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 23rd September, 2008

No. 17015/08/2008- RIC: The President is pleased to appoint Sh. D.P. Singh, IAS(UP:80) as Secretary (Joint Secretary level) in the National Commission for Safai Karamcharis w.e.f. 08.09.2008 (forenoon), for balance period of his tenure of five years i.e. upto 01.11.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NILAMBUJ SHARAN, Director

### THE DEPARTMENT OF POSTS OFFICE OF THE CHIEF POSTMASTER GENERAL, M.P. CIRCLE,

Bhopal, the 25th September, 2008

Subject—Promotion and posting in ASP cadre in M.P. Circle.

No. STA/18-1/ASP/2008: The Chief P.M.G., M.P. Circle, Bhopal is pleased to appoint the following Inspectors on regular basis in ASP Cadre in the scale of Rs. 6500-200-10500/- (Pre-revised) with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

2. The officers on promotion in ASP Cadre are allotted to the Region mentioned against each:—

Sl. No.	Name	SC/ST	Present Devision/ Unit	Region allotted
1.	Shri R.K. Agrawal	-	Jabalpur	Indore
2.	Shri R.S. Chouhan	-	Chhatarpur	HQ
3.	Shri R.S. Raghuwanshi	-	R.O. Indore	Indore
4.	Shri J.K. Kawde	-	Jabalpur	HQ
5.	Shri R.D. Kaurav	-	Ujjain	Indore

### 3. General Conditions:—

(i) No re-allotment requests will be considered within a period of one year. Leave taken during this period will not be counted for calculation of one year period for considering requests for re-allotment.

(ii) It is the officer's responsibility to send a copy of the charge report on assumption of charge on promoted post to APMG (Staff) C.O. Bhopal for record purpose.

(iii) If there are grievances regarding seniority or any other complaint, representations, if any, should be made within 15 days from the date of issue of this order.

(iv) A.D. (Staff) Indore will please issue posting orders in respect of the officials allotted to Indore Region.

(v) Officers should be relieved within 30 days from the date of issue of posting order.

(vi) In case, an officer is not willing to accept his promotion, his declination letter in writing should be received in C.O. Bhopal within 30 days from the date of issue of posting order, failing which, it will be presumed that he has declined the promotion.

### 4. Vigilance/Disciplinary case, if any:—

In case of any vig./disc. case is pending against the officials, they should not be relived for posting without obtaining specific orders from this office. The official against whom any punishment is current, they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

### 5. Option for fixation of pay:—

If the officer who wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR 22 (I) (a) (1) should do so with in one month from the date of promotion.

The officials who have been granted second financial up-gradation under the scheme of ACP, are not entitled for pay fixation on promotion to ASP Cadre.

C.D. MANDSORWALE, Asstt. Postmaster General (Staff)

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 23rd September, 2008

No. ERB-I/2007/10/4: The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2008.

(i) Shri Maha Vir Prasad, Addl. Member (Signal).

(ii) Shri M.S. Agarwal, Section Officer.

MATHEW JOHN, Secretary, Railway Board.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 25th September, 2008

No. 25-11-2005-R&R (Vol.II): In terms of section 76(6) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri S. Jayaraman as Member of the Central Electricity Regulatory Commission for a period of five years from the afternoon of the 11th September, 2008 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

MALAY SRIVASTAVA, Director

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

New Delhi, the 24th September, 2008

No. A-190111-2007-Adm.E: The President is pleased to appoint Shri S. Krishnan, IAS (UL-75), Additional Secretary in the Ministry of Labour & Employment, as Special Secretary in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed), by in-situ upgradation of his present post with effect from the forenoon of the 12th September, 2008 and until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secretary